

॥ चित्रापुर युवधारा समूह गीत ॥

गुरुप्रेरित, गुरुअनुग्रहित, गुरुपरंपराधृत युवधारा ।

युगों-युगों तक अमर रहे चिर युवधारा ॥ धृ ॥

कर्मक्षेत्र है; धर्मक्षेत्र है; गुरुक्षेत्र है; यह सारा ।

युगों-युगों तक अमर रहे चिर युवधारा ॥ १ ॥

श्रीभवानीशङ्कर नमन कर; गुरुसंकेत शिरोधार्य कर

निजशक्ति को जागृत कर; गुरुपरंपरा से बंधी रहे यह युवधारा ।

युगों-युगों तक अमर रहे चिर युवधारा ॥ २ ॥

अंतरमन विकसित करने; निर्मल करने; उज्वल करने

सारस्वत आनंदित करने; अग्रसर होती रहे; यज्ञवत् यह युवधारा ।

युगों-युगों तक अमर रहे चिर युवधारा ॥ ३ ॥

शक्ति भक्ति सम्पन्न बनें हम; संस्कृति रक्षक वीर बनें हम

सच्चे साधक शिष्य बनें हम; गुरुसेवा के पात्र बनें हम

गुरुदृष्टि के पात्र बनें हम

यतीश्वर यही प्रार्थना । - ३

युगों-युगों तक अमर रहे चिर युवधारा ॥ ४ ॥

युगों-युगों तक अमर रहे चित्रापुर युवधारा ॥